

Date: 06/09/2021

To,
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
P. J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400001
Scrip Code: 534809

To,
The Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400051
Symbol: PCJEWELLER

Sub.: Newspaper publications - Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed herewith the publications made by the Company on September 6, 2021 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers, titled as "INFORMATION REGARDING THE 16<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING", in compliance with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For PC Jeweller Limited

Company Secretary

Encl.: As above

# HEALTHCARE SECTOR

# Take advantage of loan guarantee scheme: Karad

Karad, himself a doctor, appreciated the scheme saying this is going to benefit the med-ical fraternity and also people

whichever is first.
On the progress of this scheme, he said it is gaining traction and banks have started receiving loan applications.

KUMAR DIPANKAR New Delhi, September 5

MINISTER OF STATE for

MINISTER OF STATE for Planame Bhagwark Karad has asked the medical fraternity and also people asked the medical fraternity and also people asked the strong of the \$\frac{1}{2}\) (The strong of the strong of t

scheme and ramp up infra-structure so that people in small towns also get quality health services," Karad told PTI in an

Denmark is India's 'very unique partner' in growing back greener, says Jaishankar

PRESS TRUST OF INDIA

DENMARK IS INDIA'S "very unique partner" in its efforts to

DEMMARK IS INDIA'S 'very unique partner" in its efforts to grow back greener due to the central European nation's strengths, experiences and best practices which are enormously helpful for a country like India at this stage of its development, external affairs minister S Jashankar, who is here on the last leg of his visit to three European nations — Slovenia, Croatia and Demmark to boost bilateral ties and further strengthen India's cooperation with the European Union (EU), contained the European Union (EU), contained the European Union (EU). The European Union (EU) contained the European Union (EU), contained the European Union (EU). The India Daniel Deutsch (EU) and European Union (EU). The India Daniel Counterpart leppe Kofod on Saturday. In a statement issued after the (CM meeting, the external affairs minister said what is unique about India's relationshipwith Demmark is that Demmark is the only country with which India has a green statagic partnership. "Everybody says build back

which mota has a green strangic partnership.

"Everybody says build back better, buttwe abovant to grow back greener. And in growing back greener, we think Demarkis a very very unique partnership and experiences and best grantless and experiences and expe

vance is covious given the con-text of the Covid, he said.

On enhancing the blateral trade tites, lashibars said he met five-thief eascutive-officers or the content of the said that the said the said that the said that the said that the said that the said the

30 new Covid cases, sero death in Delhi Delhi tom was recorded for the fifth consecutive day, according to cases on Sunday with a positivity rate of 0.05%, while new the partner by the health departner.

AASHRIT CAPITAL LIMITED

PAGE OF THE COME O

OSBI

Sd/-Deputy General Manager (CMD) HR Dept., Corporate Centre Mumbai

भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA AUCTION OF STATE GOVERNMENT SECURITIES

Sr. ło.	State/UT	Amount to be raised (₹cr)	Additional borrowing (Green Shoe) option (₹cr)	Tenure (in years)	Type of auction
1.	Bihar	2,000		9	Yield based
2.	Goa	200		10	Yield based
3.	Gujarat	1,500	500	10	Yield based
4.	Meghalaya	100		3	Yield based
		100		20	Yield based
5.	Mizoram	80		13	Yield based
6.	Punjab	1,000	*.	10	Yield based
		250	(*)	15	Yield based
7.	Rajasthan	1,000		10	Yield based
8.	Telangana	1,500		15	Yield based
9.	Uttar Pradesh	2,500		10	Yield based
0.	West Bengal	2,500		10	Yield based

"Don't get cheated by E-mails/SMS

PUBLIC ANNOUNCEMENT



### TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED

ani was incorporated in the name of Nacar Bank Limited on May 11, 1921 at Thoddswind, Tami Nadukas a limited company under the Indian Companies Act, 1913 pursuant to a certification of the Indian Companies Act, 1913 pursuant to a certification of the Indian Companies Act, 1913 pursuant to a certification of Indian Companies Act, 1913 pursuant to a certification of Indian Companies Act, 1913 pursuant to a certification of Indian Companies Act, 1913 pursuant to a certification of Indian Endough Indian Companies Act, 1913 pursuant to a certification of Indian Endough India under the Indian Companies Act, 1913 pursuant to a ceremone or ember 11, 1921 at Thoothukudi, Tamil Nadu, Subsequently, the normal from the Government of India dated November 14, 1962

#### OUR BANK IS A PROFESSIONALLY MANAGED BANK AND DOES NOT HAVE AN IDENTIFIABLE PROMOTER

OUR BANK IS A PROFESSIONALLY MANAGED BANK AND DOES NOT HAVE AN IDENTIFIABLE PROMOTER

NITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 15 MR 006 EQUITY SHARES OF FACE YAULE OF 2 TO EACH ("EQUITY SHARES") OF TAMILHAD MERCANTLE BANK LIMITED ("BANK" OR "SSUE")

FOR CASHI AT PROFE OF 16 PER COUNTY SHARE INCLUDED A SHARE PREMIUM OF 16 PER COUNTY SHARES INCLUDED ("A 10 PER COUNTY SHARES AGGREGATION OF 10 PER COUNTY SHARES AGGREGATION OF 10 PER LIMIT SHARE

9

Axis Capital Limited
1°Floor, Axis House, C.2, Wadia I.1°Floor, Axis House, C.2, Wadia I.1°Floor, P.B. Marg, Work, Mumbai Matharashtra, 1623
Tel: +91.22-4925.2183
Tel: +91.22-4925.2183
Website: www.axiscappiair.com/planist-8/gax/scappia
Contract person. Arisk Bhatial Pos SEBI registration no: NM000011;

LINK Intime

For TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED On behalf of the Board of Directors

TAMIL NAD MERCANTILE BANK LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, reseipt of in make an intellipent of refining of its Equity Shares and has file of the DRIFF with SEB on September 44, 2017. The DRIFF of the Desiry Sock Exchanges is DSS Limited and Notional SOAL Exchange of that a Limited at www.invention.com and wavenerships comine. Cupital Limited, Mobile Osveril Investment Arthuron Limited and SSI Capital Markets Limited at www.anticapiatic cominement and on that investment and equity shares haveless a high degaged crists or contest, appearance in society shared various for a finite degree of their contest, appearance in society shared various for the Read Hermo Pr



#### KINGS INFRA VENTURES LIMITED

(CIN: L05000KL1987PLC004913)
Registered office. 14 B, 14th Floor, The Atria, Opp. Gurudwara Temple, Thevara, Ernakulam - 582 015,
Tel: 0484 658658, Email: infoakingsinfra.com, Webs. www.kingsinfra.com

NOTICE OF 33<sup>20</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATIO

A) The Thrry third Annual General Meeting of the members of Kings Infra Ventures Limited will be held on Wednesday, the 29th Day of September, 2021, at 2.30 PM, through Video Conferencing (Vol) or Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with General Circular No. 20,2702 disterted 05th May. 2020 and General Circular No. 20,2702 disterted 15th January, 2021 that allow companies to hold Annual General Meeting (CAM) in the nameno detailed in Ceneral Circular No. 14,2020, (CAM) in the nameno detailed in Ceneral Circular No. 15th April, 2020 read with SEBI Circular No. SEBIH/O/CPD/CMD/CIRC/P/2020/79 distert 12th May, 2020 without the physical presence of the Members at a common venue.

without the physical presence of the Members at a common venue.

2. The Notice of the 33rd A6M and the Annual Report including the Financial Statements for the year ended 31st March, 2021 has been sent only by e-mail to all those Members, email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants, in accordance with MCA. Circular(s) and SBIG incular.

B)Remote E-Votings Members holding shares either in Physical or in Dematerialized form; as on the cut-off date of Wednesday, September 22, 2021, may cast their vote electronically on the businesses specified in the Notice of A6M through electronic voting system of Central Depository Services Limited (CDXS) from a place other than venue of A6M fremote e-voting? All the Members are informed that.

1) The Oficinary and the Special Businesses as set out in the notice of A6M through and the Special Businesses passes as set out in the notice of A6M through and the Special Businesses as set out in the notice of A6M through the A6M through through the A6M through through the A6M through through the A6M through through through through through the A6M through throug

By Order of the Board, For Kings Infra Ven Dated: 06.09.2021 Sd/- CS Leena Yezhuvath (Company Secretary & Compliance Officer

financialen ep





















New Delhi



# बंगाल सीआइडी ने शुभेंदु अधिकारी को तलब किया

### ममता के भतीजे अभिषेक की ईडी दफ्तर में पेशी आज

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 5 सितंबर I

पहिष्यम बंगा, 5 भरावर 1
पित्रम बंगा, 6 भरावर जांच विषाम
(सीजाइडी) ने प्रदेश विधानसभा में विषय के
नेता सुर्गेद्द अधिकारी को उनके एक आंगरबक को भीत के मामल की जांच के सिक्तरिक में स्थान भेजा है। उन्हें कोलकारा के भयानी घटन रिक्तर सीजाइडी के मुख्यालय में जांच अधिकारियों के समस्त्र सोजाय को पेश होने को कहा गया है। इस बीच, सोमबार को हों कोमहाल की मुख्यांत्री मस्त्र वनर्जी के मसीवे और तुम्मूल सोस्त्रस अमिथक बनर्जी को महीवे और तुम्मूल सोस्त्रस अभियेक बनर्जी की महीवे दिल्ली के इंडी दफार में पेशी है। उन्हें कोयला

सायरा बानो को

मुंबई, 5 सितंबर (भाषा)।

असम राइफल्स की साइकिल रैली रवाना

मुंबई, 5 सितंबर (भाषा)।

मुंबई, 5 सिसंबर (भाषा)।
पारत के 75वें स्वाधीनता
दिवस के उपास्थव में मुस्त की मार्थ 'आजापी का अनुस्त मार्कास्था'
पहल के तहत कस्मर मार्फण्ड हाता आवीलत 3,000 किलोमीटर लंबी साईकेल रेली को देवनार को हरी हाई के दिवस कर रावाना किया गया। असम राहफ्ल के महानिदेशक के साईकेल से महानिदेशक में शिलांग और मार्थ कि का सांध्र में शिलांग और मार्थ किया नाय 'प्रतिवस साईकेलंग रेली' को हरी हाँबी दिवाईं। उन्होंने कहा कि वह रेली प्रातिशील मारत के 75 वर्ष और इसके लंगी, संस्कृति, उपालीक्यों के गीरसमाली संकास 'प्रिकट इंडिया मूक्येट' को भी बाहाबा सेवी है। सफल के प्रधान मार्थ 'सिकट संक्रिया मूक्येट' को भी

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से महत्त्वपूर्ण स्थानों से गुजरेगी। नोएडा के दो पर्यटक

गंगा में डूबे, खोज अभियान जारी देहरादून, 5 सितंबर (भाषा)।

पोटाला पानले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निर्देशालय ने तलख किया है। वेपाल पुलिस की सीआहर्स ने शुक्रांक किया है। बंगाल पुलिस की सीआहर्स ने शुक्रांक किया है। बंगाल पुलिस की सीआहर्स ने शुक्रांक किया है। बात प्रवर्तन किया है। बात किया है। बात प्रवर्तन किया प्रवर्तन क्या किया किया किया है। किया प्रवर्तन किया

### 'नोक्कु-कुली' वसुली के लिए रोका इसरो का ट्रक

अस्पताल से छुट्टी तिरुवनंतपुरम, 5 सितंबर (भाषा)।

तिरुपतंत्रपुरम्, 5 सितंत्रर (भाषा)।

भारतीय अंतिरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरी) के पत्र कुली शत्र के अधिक से अधिक

# गुजरात : पिता पर अपने तीन बच्चों की हत्या का आरोप

अरावली, 5 सितंबर (भाषा)।

जुरावत के अरावली किलो में एक घरेलू

गुरावत के अरावली किलो में एक घरेलू

गुरावत के अरावली किलो में एक घरेलू

हिमान के बाय एक ज्यांकित ने अपने पीन बणां के किला तीर पर करा कर दी। पत्नी पर

गा शुक्रावर एक व्यक्तित ने अपनी पान बणां के किला तीर पर करा कर दी। पत्नी पर

गा शुक्रावर एक व्यक्तित ने अपनी पान बणां के किला तीर पर करा कर दी। पत्नी पर

गा शुक्रावर एक व्यक्तित ने अपनी पत्न बणां के अपने तीर पर करा कर दी। पत्नी पर

गा शुक्रावर एक व्यक्तित ने अपनी पत्नी पर करिया

ग्रावत ने अपनी प्रता कर के प्रता है के प्रता कर करें। ग्रावत कर दिया।

गुक्तिस ने प्रवाद के व्यक्तित ने अपनी पत्नी पर

में अरावत वालुका के स्माक गांव में हुई। इसार्य

प्रतार वालुका के स्माक गांव में हुई। इसार्य

अपनी वालुका के स्माक गांव में हुंग हो आपनो करार्य

अपनी वालुका के स्माक गांव में हुंग हो आपनो करार्य

वालुका करार्य

वालुका के स्माव के विकार के विकार के प्रत में काल्य कर दिया है कि के विकार के विकार के स्माव के विकार के सार्य

वालुका करार्य

वालुका करार्य

वालुका करार्य

वालुका के अपनी के सार्य के विकार के स्माव कि काल्य करार्य

वालुका करार्य

वालुका के सार्य के विकार के प्रत में काल्य करार्य

वालुका करार्य

वालुका करार्य

वालुका करार्य

वालुका करार्य

वालुका के सार्य के विकार के प्रत मार्य करार्य

वालुका करार्य

वालुका करार्य

वालुका के सार्य के विकार के एक पर विकार के स्माव कि काल्य करार्य

वालुका करार्य

वालुका करार्य के प्रत मार्य के किल्य के प्रत मार्य के किला करार्य

वालुका करार्य

वालुका करार्य के प्रत मार्य के विकार



विशिष्य को कोर्गार ("क्विती") अन्य अधिक विश्वाल प्रेमा ("क्वित्वार्धा") के प्रमाण प्रेम्पा ("क्वितार्धा") के प्रमाण कर्म के प्रमाण क्वितार्धा के प्रमाण क्वितार्ध्व के प्याण क्वितार्ध्व के प्रमाण क्वितार्व के प्रमाण क्वितार्ध्व के प्रमाण क्वितार्वक्व क्वितार्ध्व के प्रमाण क्वितार्ध्व के प्रमाण क्वि

क्षेत्रपार (क्षाप्राय १, 2022) क्षेत्रपार (क्षिप्रीय क्षाप्राय) क्षाप्राय प्रश्निक क्षाप्राय (त्रिक्षिय क्षाप्राय) क्षाप्राय (क्षाप्राय) (त्रिक्षिय क्षाप्राय) (त्रिक्षिय क्षाप्राय) (त्रिक्ष्य क्षाप्राय) (त्रिक्षय) (त्रिक्षय क्षाप्राय) (त्रिक्षय) (त्रिक्य) (त्रिक्षय) (त्रिक्य

हारा जावात 63 रिपालर 2011 से कीया गुड़ की है। पहला एवं पार्थिक ऐसी में क्या गुड़ की है। पहला एवं पार्थिक ऐसी क्यानी की देशवाद <u>प्रकार Installation oon</u> पत्र में हैं होगे कि राज्ये हैं। पत्र की प्रकार के प्रकार <u>प्रकार कि कि कार्या</u>का <u>की</u> पर परावा से आवन्त्रीयों को प्रवास के प्रकार की प्रकार के कि पत्र की पत्र की पत्र की पत्र की कि क्यानी की की क्यानी प्रकार को पूर्वना में बर्गित प्र पत्र की ब्रिक्ट की प्रकार में बर्गित पत्र की प्रकार की प्रकार की प्रकार की प्रकार की प्रकार में ब्रिक्ट की प्रकार की प्रकार की प्रकार की प्रकार की प्रकार के की पत्र की प्रकार की प्रकार के की पत्र की प्रकार की प्रकार के की पत्र की प्रकार की प्रकार के की पत्र की पत्र

कृत्या कोट करें कि उपरोक्ता जिस एवं समस्य के उपरान्त में लोट की जानुगीय नी हैं थी जानेंदी। जोई सामित पो एयोना की पूचना के प्रसान के बाद तरदाव समा हो त्या कर —आक किया हैं जीन पो एयोना के प्रसान के बाद तरदाव समा हो तरह कर —आक किया है। किया है जीन ह

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES CILLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES, NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. PUBLIC ANNOUNCEMENT

## TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED

ITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 15,941,900 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF 1/0 EACH ("EQUITY SHARES") OF TAMILIAAD MERCANTILE BANK LIMITED ("BANK" OR "BSUES") OR CASH AT A PRICE OF 1/0] PER EQUITY SHARES (MICLIDING A SHARE PRESIDIL OF 1/0] PER EQUITY SHARES (THE "OFFER") AGGREGATING UP TO 1/1 (HILLION) (THE "OFFER") ORREGATING TO 1/0] MILLION (THE "OFFER POR BALE"), COMPRISHOAN OFFER POR BALE OF UP TO 5,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO 1/0] MILLION (THE "STEEL") AND AGGREGATING TO 1/0] MILLION (THE "OFFER POR BALE") AND AGGREGATING TO 1/0] MILLION (THE "OFFER POR BALE") AND AGGREGATING TO 1/0] MILLION (THE "OFFER POR BALE") AND AGGREGATING TO 1/0] MILLION (THE "OFFER POR BALE") AND AGGREGATING TO 1/0] MILLION (THE "OFFER POR BALE") AND AGGREGATING TO 1/0] MILLION STRUMBANDAME AND AGGREGATING TO 1/0] MILLION STRUMBANDAME ORDODE (UP TO 5/0).

tion should not that investment in cutility through imprises pink degree of rise. For corresponding to the property of by the SEB Into does SEB Iguarantee the accuracy or accuracy in a series of the Intelligence of the Intelli

	REGISTRAR TO THE OFFER		
AXIS CAPITAL	MOTILAL OSWAL		<b>LINK</b> Intime
Acta Capital Limited  Charles, P.B. Mary, Morti, Mumbal - 400 025, Mahamatria, India  Hard, P.S. Mary, Morti, Mumbal - 400 025, Mahamatria, India  Hard + 512 A.S. S. 2 188  E-mail: Irm Jop Oglenskop, In  Weebalker, www.naferoplata.co.in  Investor grievance email: complaints @decision.  Confact person: Anitt Bharla' Peven Naix  ESEI registration on: INMO00012029	Modifal Carwal Investment Advisors Limited Modifal Carwal Tower, Pohlimbidah Sayani Rosed, Opposite Parel ST Depot, Psaibadevi, Mauther 400 025, Mahimesehra, India 17a4 447 22 1935 4380 E-small: trib.jopgmotisioseal.com Webselte: www.rotisioseal.group.com Investor grisevance e-mail: molipiedecessig-grotilalorevial.com Contract persons: Risu Sharma 84881 registeration no.: InAMODO11005	SBI Capital Markota Limited 202, Makin Towar E', Curille Piazde, Marribal - 400 005, Maharanihra, India Tiat: +91 22 2217 8300 Famil: Trait-polyphicips.com Weldelia: www.sbicaps.com Investor princera e-mail: investorale changle Investor princera e-mail: investorale Investorale changle Investorale changle Investorale changle Investorale changle Investorale changle Investorale Invest	Link indres India Private Limited C-101, 1º Floor, 247, Lai Behadur Shastri Marg, Winnot (West), Mumbal - 400 DS3 Mahamahra, India Ref - 912 24918 0200 E-mail: Imol.poglinishrime.co.in Newtor grievance e-mail: Imol.poglinishrime.co.in Confact pervens: Shamil Oppolitishman SEER registration mc. IMPG00000058

ऋषिकेस पूमने आए नीएका के यो पर्यटक विकास के गंगा नहीं में कूम गए। एक किकारी ने यह गानकारी थी। पुनक मुनि को रेती के के कर कर महाला में हुई हस पटना के बाद कर पुनिस और राज्य आपया अंतिवादन के बाद कर पुनिस और राज्य आपया अंतिवादन के बाद कर पुनिस और राज्य आपया अंतिवादन के बाद कर पुनिस की राज्य के विकास के वितास के विकास के

स्थान : गुरूबान शिथि : 06.09.2021 Adfactors 277











